



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1982/वैशाख 8, 1904

No. 134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1982/VAISAKHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

अम संज्ञालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1982

सा०का०सि० 360(अ)—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1982 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में,—

(1) पैरा 3 में, उपपैरा (ख) के अधीन परन्तुक में “58 अंको के स्थान पर” 59 अंक रखे जायेंगे,

(2) पैरा 28 के उपपैरा (1) में छह कम से कम 2 वर्ष कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य रहा है, “शब्दों और अंको के स्थान पर” उसने कुटुम्ब पेंशन निधि में कम से कम एक वर्ष अभिदाय किया है शब्द रखे जायेंगे।

(3) पैरा 28 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—“28क-पेंशनरों के लिये अनुपूरक शब्द :—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम,

1982 के प्रवृत्त होने की तारीख से ही, मासिक कुटुम्ब पेंशन पाने वाले पेंशनरों को ऐसी वरों पर और ऐसी रीति से अनुपूरक वृद्धियों वेगी जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

(4) पैरा 31 में, “कम से कम दो वर्ष के लिये” शब्दों के स्थान पर “कम से कम एक वर्ष के लिये” शब्द रखे जायेंगे;

(5) पैरा 31क के उपपैरा (1) में “दो वर्ष शब्द के स्थान पर” एक वर्ष शब्द रखे जायेंगे;

(6) पैरा 32 के उपपैरा (1) में “2 वर्ष शब्द और अंक के स्थान पर” एक वर्ष शब्द रखे जायेंगे;

(7) पैरा 33 के उपपैरा (1) के अधीन परन्तुक में “2 वर्ष शब्द और अंक के स्थान पर” एक वर्ष शब्द रखे जायेंगे;

(8) पैरा 33 के उपपैरा (1) में “दो वर्ष का अभिदाय पूरा होने से पूर्व” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष का अभिदाय पूरा होने से पूर्व” शब्द रखे जायेंगे।

(9) पैरा 34 में, उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(1) जहाँ कोई व्यक्ति, 25 वर्ष की आयु के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य बनता है, वहाँ कुटुम्ब पेंशन और अन्य लाभ पैरा 28, 31, 32 और 33 के उपबन्धों के अनुसार देय होंगे और उनकी रकम, किसी सदस्य के अभिदाय के प्रतिदाय के मामले को छोड़कर इस स्कीम की अनुसूची की सारणी 11 में की प्रविष्टि में दी गई आयु पर आधारित बात के प्रति निर्देशन से अवधारित की जायेंगी;

परन्तु न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन किसी भी दश, में 60 रु० प्रति-मास से कम नहीं होगी।”

टिप्पण : (1) मूल स्कीम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(1) तारीख 4 मार्च, 1971 में पृष्ठ 251 पर प्रकाशित की गई;

(2) स्कीम के पैरा 1 का उपपैरा (3) सा०का०नि० 804 तारीख 17 जून, 1978 द्वारा संशोधित किया गया;

(3) स्कीम के पैरा 2 का खण्ड (ब) सा०का०नि० 427 तारीख 20 मार्च, 1976 द्वारा संशोधित किया।

(4) स्कीम के पैरा 3 के खण्ड (ख) के अधीन परन्तुक, सा०का०नि० 1188 तारीख 30 सितम्बर, 1972 द्वारा जोड़ा गया;

(5) स्कीम के पैरा 4 का उपपैरा (2) सा०का०नि० 892 तारीख 1 जून, 1971 द्वारा संशोधित किया गया; .

(6) स्कीम के पैरा 4 का उपपैरा (2क) सा०का०नि० 1252 तारीख 1 सितम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया तत्पश्चात् सा०का०नि० 1961 तारीख 24 दिसम्बर, 1971 द्वारा संशोधित किया गया; .

(7) स्कीम के पैरा 4 का उपपैरा (2ख) सा०का०नि० 1188 तारीख 30 सितम्बर, 1972 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया तत्पश्चात् सा०का०नि० 2321 तारीख 30 अगस्त, 1975 द्वारा संशोधित किया गया।

(8) स्कीम के पैरा 4 का उपपैरा (2ग) सा०का०नि० 940 तारीख 1 सितम्बर, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(9) स्कीम का पैरा 4 का सा०का०नि० 940 तारीख 1 सितम्बर, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(10) स्कीम के पैरा 6 के अधीन परन्तुक, सा०का०नि० 186 (प्र) तारीख 31, मार्च, 1973 द्वारा जोड़ा गया।

(11) स्कीम के पैरा 9 का उपपैरा (1) सा०का०नि० 978 तारीख 9 अगस्त, 1972 द्वारा संशोधित;

(12) स्कीम के पैरा 9 का उपपैरा (2क) सा०का०नि० 427 तारीख 30, मार्च, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(13) स्कीम के पैरा 9 के उपपैरा (3) के अधीन परन्तुक सा०का०नि० 298 तारीख 24 मार्च, 1973 द्वारा जोड़ा गया।

(14) स्कीम के पैरा 9 का उपपैरा (4) सा०का०नि० 427 तारीख 30, मार्च, 1976 द्वारा संशोधित किया गया।

(15) स्कीम के पैरा 22 का उपपैरा (2) सा०का०नि० 701 तारीख 8 जुलाई, 1981 द्वारा संशोधित किया गया;

(16) स्कीम के पैरा 23 का उपपैरा (2) सा०का०नि० 186 (प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 द्वारा संशोधित किया गया।

(17) स्कीम का पैरा 28 सा०का०नि० 1188 तारीख 30 सितम्बर, 1972 सा०का०नि० 298 तारीख 24 मार्च, 1973 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31, मार्च, 1973 और सा०का०नि० 129 तारीख 31 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित किया गया।

(18) स्कीम का पैरा 29 सा०का०नि० 25 तारीख 5 जनवरी, 1980 द्वारा संशोधित किया गया;

(19) स्कीम के पैरा 31 में सा०का०नि० 1156 तारीख 7 अगस्त, 1971 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 और सा०का०नि० 129 तारीख 31 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित किया गया।

(20) स्कीम का पैरा 31 क सा०का०नि० 1156 तारीख 7 अगस्त, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया और तत्पश्चात् सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 द्वारा संशोधित किया गया।

(21) स्कीम का पैरा 32 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 द्वारा संशोधित किया गया।

(22) स्कीम का पैरा 33 सा०का०नि० 1299 तारीख 7 अक्टूबर, 1972 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 और सा०का०नि० 201 तारीख 7 जनवरी, 1978 द्वारा संशोधित किया गया।

(23) स्कीम का पैरा 34 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 सा०का०नि० 201 तारीख 7 जनवरी, 1978 सा०का०नि० 129 तारीख 31, जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित किया गया।

(24) स्कीम का पैरा 34क सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(25) स्कीम का पैरा 34ग सा०का०नि० 1188 तारीख 30 सितम्बर, 1972 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया और सा०का०नि० 186 (प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 द्वारा संशोधित किया गया।

(26) स्कीम का पैरा 40 सा०का०नि० 1188 तारीख 30 सितम्बर, 1972 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(27) स्कीम की अनुसूची की सारणी 1 सा०का०नि० 186(प्र) तारीख 31 मार्च, 1973 और सा०का०नि० 174 तारीख 20 जनवरी, 1977 द्वारा संशोधित की गई;

(28) स्कीम की अनुसूची की सारणी ii सा०का०नि० 182 तारीख 7 फरवरी, 1976 द्वारा संशोधित की गई;

(29) प्ररूप 1 सा०का०नि० 940 तारीख 23 अगस्त, 1973 द्वारा संशोधित किया गया।

अधिसूचना का स्पष्टीकरणक भाषण

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के अधीन विद्यमान लाभों के उदाहरण का मामला सरकार के विचाराधीन है और इस प्रयोजनार्थ कुटुम्ब पेंशन निधि का बीमाकक मूल्यांकन किया जा रहा है।

2. यह विनिश्चय किया गया है कि बीमाकक मूल्यांकन के पूर्ण होने तक, स्कीम में 1-4-1982 से निम्नलिखित परिवर्तन कर दिए जायें :—

- (1) विभिन्न लाभों का हकदार बनने के लिये, अधिदायी सदस्यता की न्यूनतम अवधि के अनुबन्ध को दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष करना;
- (2) न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के मामले में प्रवेश आयु की बात को लागू करने से अभियुक्ति दे दी जाये जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन, किसी भी दश में, 60 रु० प्रतिमास से कम नहीं है और यह लाभ सभी पेंशनरों को जिनके अस्तित्व में पेंशनर भी हैं, जो 1-4-1982 को मासिक कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उपलब्ध कराया जा सके और
- (3) स्कीम में एक सामर्थ्यकारी उपबन्ध सम्मिलित करना जिससे केन्द्रीय सरकार को मासिक कुटुम्ब पेंशन पाने वाले पेंशनरों के समय-समय पर अनुपूर्वक राहत देने के लिये सशक्त किया जा सके।

3. इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[का०सं०एस०-35011/10/81-एफ०पी०जी०]

आर०के०ए० सुब्रह्मण्य, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 23th April, 1982

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees Family Pension Scheme, 1971, namely :

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Family Pension (Amendment) Scheme, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force from the first day of April, 1982.

2. In the Employees' Family Pension Scheme, 1971,

(1) in paragraph 3, in the proviso under sub-paragraph (b), for the figures, '58', the figures, '59', shall be substituted;

(2) in paragraph 28, in sub-paragraph (1), for the words and figure, "he has been a member of the Family Pension Fund for a period of not less than 2 years", the words, "he has contributed to the Family Pension Fund for a period of not less than one year", shall be substituted ;

(3) after paragraph 28, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"28A. Supplementary relief to pensioners :—

On and from the date of coming into force of the Employees' Family Pension (Amendment) Scheme, 1982 the Central Government may grant to the pensioners in receipt of the monthly family pension, supplementary additions at such rates and in such manner as may be notified from time to time";

(4) in paragraph 31, for the words, "for a period of not less than two years", the words, "for a period of not less than one year", shall be substituted;

(5) in paragraph 31A, in sub-paragraph (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted;

(6) in paragraph 32, in sub-paragraph (1), for the word and figure, "2 years", the words, "one year", shall be substituted;

(7) in paragraph 33, in the proviso under sub-paragraph (1), for the word and figure, "2 years", the words, "one year", shall be substituted ;

(8) in paragraph 33, in sub-paragraph (1), for the words, "before the completion of two years' contributions", the words, "before the completion of one year's contributions", shall be substituted;

(9) In paragraph 34, for sub-paragraph (1) the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Where a person becomes a member of the Family Pension Fund after the age of 25 years, the family pension and other benefits shall be payable in accordance with the provisions contained in paragraphs 28, 31, 32 and 33 and the amount thereof except in the case of refund of a member's contribution, determined with reference to the factor depending on the age at entry given in Table II of the Schedule to this Scheme;

Provided that the minimum family pension shall not, in any case, be less than Rs. 60 per month."

NOTE :—

(i) Principal Scheme published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3(i) dated the 4th March 1971, at page 251;

(ii) Sub-paragraph (3) of paragraph 1 of the Scheme was amended—vide GSR 804 dated 17th June 1978;

(iii) Clause (f) of Paragraph 2 of the Scheme was amended—vide GSR 427 dated the 20th March 1976;

(iv) Proviso under clause (b) of paragraph 3 of the Scheme was added—vide GSR 1188 dated 30th September, 1972;

(v) Sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Scheme was amended—vide GSR 892 dated 1st June 1971;

(vi) Sub-paragraph (2A) of paragraph 4 of the Scheme was inserted—vide GSR 1252 dated 1st September, 1971, and further amended—vide GSR 1961 dated 24th December 1971;

(vii) Sub-paragraph (2B) of paragraph 4 of the Scheme was inserted—vide GSR 1188 dated 30th September 1972, and further amended—vide GSR 2321 dated 30th August 1975;

(viii) Sub-paragraph (2C) of paragraph 4 of the Scheme was inserted—vide GSR 940 dated 1st September 1973;

(ix) Paragraph 4A of the Scheme was inserted—vide GSR 940 dated 1st September 1973;

(x) Provisions under Paragraph 6 of the Scheme were added—vide GSR 186(E) dated 1st March 1973;

(xi) Sub-paragraph (1) of paragraph 9 of the Scheme was amended—vide GSR 978 dated 19th August 1972;

(xii) Sub-paragraph (2A) of paragraph 9 of the Scheme was inserted—vide GSR 427 dated 30th March 1976;

(xiii) Proviso under sub-paragraph (3) of paragraph 9 of the Scheme was added—vide GSR 298 dated 24th March 1973;

(xiv) Sub-paragraph (4) of paragraph 9 of the Scheme was amended—vide GSR 427 dated 30th March 1976;

(xv) Sub-paragraph (2) of paragraph 22 of the Scheme was amended—vide GSR 701 dated 8th July 1981 ;

(xvi) Sub-paragraph (2) of paragraph 23 of the Scheme was amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973;

(xvii) Paragraph 28 of the Scheme was amended—vide GSR 1188 dated 30th September 1972, GSR 298 dated 24th March 1973, GSR 186(E) dated 31st March 1973, and GSR 129 dated 31st January 1981;

(xviii) Paragraph 29 of the Scheme was amended—vide GSR 25 dated 5th January 1980;

(xix) Paragraph 31 of the Scheme was amended—vide GSR 1156 dated 7th August 1971, GSR 186(E) dated 31st March 1973, and GSR 129 dated 31st January 1981;

(xx) Paragraph 31A of the Scheme was inserted—vide GSR 1156 dated 7th August 1971 and further amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973 :—

(xxi) Paragraph 32 of the Scheme was amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973;

(xxii) Paragraph 33 of the Scheme was amended—vide GSR 1299 dated 7th October 1972, GSR 186(E) dated 31st March 1973, and GSR 201 dated 7th January 1978;

(xxiii) Paragraph 34 of the Scheme was amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973, GSR 201 dated 7th January 1978 and GSR 129 dated 31st January 1981;

(xxiv) Paragraph 34A of the Scheme was inserted—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973;

(xxv) Paragraph 34C was inserted—vide GSR 1188 dated 30th September 1972 and amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973;

(xxvi) Paragraph 40 of the Scheme was inserted—vide GSR 1188 dated 30th September 1972;

(xxvii) Table I of the Schedule to the Scheme was amended—vide GSR 186(E) dated 31st March 1973 and GSR 174 dated 20th January 1977 ;

- (xxviii) Table II of the Schedule to the Scheme was amended—vide GSR 182 dated 7th February 1976; and
- (xxix) Form I was amended—vide GSR 940 dated 23rd August 1973.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE NOTIFICATION

The matter of liberalisation of the existing benefits under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 is under consideration of Government, and for this purpose, an actuarial valuation of the Family Pension Fund is in progress.

2. Pending completion of the actuarial valuation, it has been decided to make the following changes in the Scheme, with effect from 1-4-1982 :—

- (i) To reduce the stipulation of the minimum period of contributory membership, for entitlement to the various benefits, from two years to one year;

- (ii) To dispense with the application of the entry age factor in the case of the minimum family pension, so as to ensure that the minimum family pension is not in any case less than Rs. 60 per month, and to make this benefit available to all pensioners, including those in receipt of the monthly family pension as on 1-4-1982; and

- (iii) To incorporate an enabling provision in the Scheme to empower the Central Government to grant to the pensioners, in receipt of the monthly family pension, supplementary relief from time to time.

3. It is confirmed that nobody's interests will be adversely affected.

[F. No. S-35011/10/81-FPG]

R. K. A. SUBRAHMANYA, Addl. Secy.